

भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के उप सचिव रैंक से अन्यून कोई अधिकारी से यह प्रमाणित करवाना होगा कि उक्त माल का प्रयोग दिव्यांग व्यक्तियों वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा; और जैसा कि उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 446, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV – 14% में,-

(i) क्रम सं. 12, और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

|      |            |                        |
|------|------------|------------------------|
| "12क | 2202 99 90 | कैफीनेटेड पेय पदार्थ"; |
|------|------------|------------------------|

ङ अनुसूची V– 1.5% में,-

(i) क्रम सं. 3, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 4, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

च. अनुसूची VI– 0.125 में %,-

(i) क्रम सं. 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न चाहे ये कर्मित किए गए हों या नहीं या श्रेणित हों या नहीं लेकिन इनको पिरोया, आरुढ़ या जड़ा न गया हो; अन्य श्रेणित बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूंथे गए हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "संश्लिष्ट या पुनर्संनिर्मित रत्न या उप रत्न चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किंतु जो गूंथे, आरुढ़ या जड़े नहीं हैं; अश्रेणीकृत, संश्लिष्ट या पुनः संनिर्मित रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूंथे गए हैं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा.सं. 354/131/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं.1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 12/2019- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 जुलाई 2019, सा.का.नि. 539(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

#### No. 14/2019-Central Tax (Rate)

**G.S.R.709(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017,

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

- (i) S. No. 33A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) against S. No. 164, in the entry in column (3), after item ii, the following item shall be inserted, namely: -  
“iii. Marine Fuel 0.5% (FO)”;
- (iii) against S. No. 224, for the entry in column (2), the entry “63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309], shall be substituted;
- (iv) after S. No. 234B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

|       |      |                                              |
|-------|------|----------------------------------------------|
| “234C | 8509 | Wet grinder consisting of stone as grinder”; |
|-------|------|----------------------------------------------|

- (v) S. Nos. 235 to 242 and the entries related thereto, shall be omitted;

B. in Schedule II - 6%, -

- (i) after S. No. 80A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted namely: -

|       |                    |                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “80AA | 3923<br>or<br>6305 | Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods”; |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (ii) S. No. 201A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) after S. No. 205 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “205A | 8601 | Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators                                                                                                                                                                              |
| 205B  | 8602 | Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof                                                                                                                                                   |
| 205C  | 8603 | Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604                                                                                                                                                                             |
| 205D  | 8604 | Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles)                                                                         |
| 205E  | 8605 | Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)                                                                   |
| 205F  | 8606 | Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled                                                                                                                                                                                                             |
| 205G  | 8607 | Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof                                                                                                                                             |
| 205H  | 8608 | Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing”; |

- (iv) against S. No. 231B, in column (3), after the words “Slide fasteners”, the words “and parts thereof”, shall be inserted;

C. in Schedule III - 9%, -

- (i) against S. No. 24A, in column (3), after the words “coconut water”, the words “and caffeinated beverages” shall be inserted;
- (ii) against S. No. 108, in column (3), after the words “other closures, of plastics”, the brackets, words, letters and figures “(except the items covered in Sl. No. 80AA in Schedule II)], shall be inserted;
- (iii) in S. No. 400, for the entry in column (3), the entry, “Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely: -
  - (a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and
  - (b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc
 for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department”, shall be substituted;
- (iv) S. No. 446 and the entries relating thereto shall be omitted;

D. in Schedule IV – 14%, -

- (i). after S. No. 12 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely: -

|       |          |                         |
|-------|----------|-------------------------|
| “12A. | 22029990 | Caffeinated Beverages”; |
|-------|----------|-------------------------|

E. in Schedule V – 1.5%, -

- (i) S. No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;

F. in Schedule VI – 0.125%, -

- (i) in S. No. 2, for the entry in column (3), the entry, “precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport”, shall be substituted;
- (ii) S. No. 2A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry, “Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport”, shall be substituted;
- (iv) S. No. 4 and the entries relating thereto, shall be omitted;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2019.

[F.No. 354/131/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note :** The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 12/2019-Central Tax(Rate) dated 31st July, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 539(E), dated the 31st July, 2019.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

**सं. 14/2019- एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 710 (अ).—**केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ),